



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

2 ज्येष्ठ 1940 (श0)  
(सं० पटना 458) पटना, बुधवार, 23 मई 2018

---

सं० 03/Smart City-02-07/2017-1197  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प  
18 मई 2018

विषय:— केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर शहर में Smart City योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित SPV कम्पनी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों की सृजन की स्वीकृति।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I(Vol-II) दिनांक 25/05/2016 द्वारा Smart City मिशन योजना के अन्तर्गत भागलपुर शहर, पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक 28/06/2017 द्वारा पटना शहर एवं पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक 28/06/2017 द्वारा मुजफ्फरपुर शहर का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य भागलपुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर शहर का आर्थिक विकास करना और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों का मांग प्रशस्त करती है, से चयनित शहरों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्षेत्र-आधारित विकास (Area Based Development) एवं पूर्ण शहर आधारित विकास (Pan City Development) की योजनाएँ ली जायेगी। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहरी अवस्थापना और सेवाएँ बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, की जानकारी और आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इससे भागलपुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर शहरों के नागरिकों का चहुँमुखी विकास, जीवन की गुणवत्ता सुधार, रोजगार के अवसर और सभी के लिए विशेष तौर से गरीबों और वंचितों की आय में वृद्धि हो सकेगा, जिससे भागलपुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर शहरों के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उक्त कार्यो को सम्पादित करने हेतु एक (Special Purpose Vehicle) SPV के रूप में भागलपुर स्मार्ट

सिटी लि0 कम्पनी का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2429 दिनांक 28.10.2016 पटना स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी (Special Purpose Vehicle) SPV का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0-2261 दिनांक 05.10.2017 एवं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी SPV का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं0-2262 दिनांक 05.10.2017 द्वारा किया गया है।

2. भागलपुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में गठित SPV के संचालन हेतु पाँच वर्षों के लिए संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु निम्न पदों के सृजन का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पद का नाम	नियुक्ति के प्रकार	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अधिकतम उम्र सीमा	मानदेय (रूपये प्रतिमाह) प्रति पद	वार्षिक वित्तीय भार
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Chief Executive Officer (CEO)	संविदा आधारित	01x3	(i) Master in Business Administrative/PGDM or Equivalent for reputed institutions of India or Abroad and (ii) Graduation in Engineering/from reputed institution, with at least 60% marks or equivalent grade point average.	(i) Not less than 15 years of post-qualification experience in managerial capacity in an equivalent or similar position in reputed organization, of which not less than 5 years in urban or Infrastructural sector. (ii) International engagement will be considered as an added advantage. In addition to technical Competence, equal Importance will be given to strategic thinkers, with a development mind set, an effective personality and an ability to build external and internal relationships.	58	225000/-	8100000.00
2	Chief General Manager (CGM)	संविदा आधारित	01x3	<b>For Contractual-</b> Bachelors/Master's in Civil Engineering with Master of Planning or MBA or construction Management or Master of Engineering in Urban infrastructure related subject.	Not less than 12 years of Experience water supply, Roads, Sewerage Networks, Urban Infrastructure, project formulation, Review of consultancy report, work and progress monitoring	55	150000/-	5400000.00
3	Chief Finance Officer (CFO)	संविदा आधारित	01x3	<b>For Contractual-</b> Graduation in any discipline with at least 60% marks or equivalent grade point average and Member of institute of Chartered Accountants of India or Institute of Cost Accountant of India or ICA or AICWAI. Preference will be given to those candidates who are also a Member of Institution of company Secretaries of India.	For Contractual- Not less 10 years of post qualification experience in managerial capacity in an equivalent of similar position in a reputed organization. For Deputation/Retired- Having post qualification experience of not less than 20 years in financial matters or services.	55	125000/-	4500000.00
4	Sr. Manager (Technical)	संविदा आधारित	02x3	<b>For Contractual-</b> B.E/B.Tech (Civil Engineering)	Not less than 10 years of post qualification experience in relevant field.	50	100000/-	7200000.00
5	Company Secretary (CS)	संविदा आधारित	01x3	Graduation in any discipline with at least 60% marks or equivalent grade point average and Member of Institute of company secretaries of India.	Not less than 05 years of post qualification experience in managerial capacity in an equivalent or similar position in a reputed organisation. LLB will be an added advantage.	50	90000/-	3240000.00

क्र० सं०	पद का नाम	नियुक्ति के प्रकार	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अधिकतम उम्र सीमा	मानदेय (रूपये प्रतिमाह) प्रति पद	वार्षिक वित्तीय भार
1	2	4	5	6	7	8	9	10
6	Manager (Technical)	संविदा आधारित	03x3	For Contractual- B.E/B.Tech(Civil or Mechanical Engineering)	Not less than 06 years post qualification experience in relevant field.	50	85000/-	9180000.00
7	Manager (Finance & Procurement)	संविदा आधारित	01x3	Member of ICAI	Not less than 05 years Experience in finance/Account in reputed organisation Qualification of CMA will be an added advantage.	45	85000/-	3060000.00
8	Manager (Monitoring & Evaluation)	संविदा आधारित	01x3	MBA/PGDM or B.E/B.TECH or Equivalent	Not less than 06 years of post Qualification Experience of which not less than 4 years in project Monitoring in Government/Public Sector.	40	85000/-	3060000.00
9	Manager (Implementation & Control)	संविदा आधारित	01x3	MBA/PGDM or B.E/B.TECH or Equivalent	Not less than 06 years of post qualification experience of which not less than 4 years in project Monitoring in Government/Public Sector.	40	85000/-	3060000.00
10	Manager (IT)	संविदा आधारित	01x3	B.E/B.Tech/MCA in computer Science/IT or Equivalent	(i) Not less than 06 years of post qualification experience in reputed organisations. (ii) Experience of working with Govt.organisation will be an added advantage.	40	85000/-	3060000.00
11	Public Relation Officer (PRO)	संविदा आधारित	01x3	Master of PG Diploma in Journalism/Mass Communication or equivalent from a reputed institution.	Not less than 05 years of post qualification experience in relevant field.	40	70000/-	2520000.00
12	Accountant	संविदा आधारित	02x3	M.B.A/PGDM or Equivalent in financial Management or B.Com/M.Com of Equivalent knowledge on tally.	Not less than 04 years of Experience in finance/Accounts in reputed organisations tally knowledge must.	40	35000/-	2520000.00
13	Office Executive cum Assistant	संविदा आधारित	06x3	Graduate in any discipline with knowledge of Computer.	Not less than 02 years of experience in Data Entry.	40	30000/-	6480000.00
14	Stenographer	संविदा आधारित	02x3	Graduation in any discipline with knowledge of short hand writing & Computer	Not less than 02 years of experience in Stenography.	35	25000/-	1800000.00
15	Computer Operator	संविदा आधारित	06x3	Inter Pass with Certificate in DCA/ADCA or equivalent.	Not less than 02 years of experience in Data Entry.	35	20000/-	4320000.00
16	Peon/Helper (On outsourcing basis as per requirement)	आउटसोर्सिंग आधारित				-	-	
कुल								67500000.00

( छह करोड़ पचहत्तर लाख रू० मात्र)

इन वर्णित पदों का सृजन संविदा के आधार पर पाँच वर्षों के लिए किया जायेगा। इन पदों पर नियोजन हेतु अभ्यर्थियों को अर्हता का निर्धारण संबंधित SPV के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया गया है। इन पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः तीन वर्ष के लिए की जायेगी। इसके बाद उनके कार्यकलाप एवं आवश्यकता के आधार पर उनकी सेवा अवधि एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम दो वर्षों तक SPV के द्वारा विस्तारित की जा सकेगी।

3. उक्त पदों पर होने वाले नियोजन में सभी SPV द्वारा बिहार सरकार के आरक्षण के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

4. तीनों SPV कंपनी यथा पटना स्मार्ट सिटी लि०, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लि० एवं भागलपुर स्मार्ट सिटी लि०, के कार्यों के संचालित करने हेतु वर्णित पदों का सृजन के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार प्रति SPV कंपनी 225.00 लाख रू० की दर से 03 SPV कंपनी हेतु  $225.00 \times 3 = 675.00$  लाख रू० (छह करोड़ पचहत्तर लाख रू० मात्र) होगा। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इन तीन शहरों को आवंटित होने वाली केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल राशि के अंतर्गत प्राप्त (Administrative and other Expences) A&OE के लिए 5% राशि कर्णांकित है। वार्षिक व्यय का वहन कर्णांकित A&OE के राशि से किया जायेगा।

5. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 15.05.2018 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं०-21 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

6. अतः केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत भागलपुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर शहर में Smart City योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित SPV कम्पनी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित किया जाता है।

**आदेश—**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त—सह—अध्यक्ष, स्मार्ट सिटी लि०, पटना, भागलपुर एवं तिरहूत/जिला पदाधिकारी, पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/CEO, Smart City Ltd, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

**आदेश से,**

चैतन्य प्रसाद,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 458-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>